

HeidelbergCement India Limited

CIN: L26942HR1958FLC042301 Registered Office 9th Floor, Infinity Tower "C", DLF Cyber City, Phase-II, Gurugram, Haryana 122002, India Phone +91-124-4503700 Fax +91-124-4147698 Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2020-21

26th August 2020

BSE Ltd. Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Ltd Listing Department Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code : 500292

Trading Symbol : Heidelberg

Dear Sir,

Sub: Copy of Notice advertisement regarding Annual General Meeting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, copies of notice advertisement published in today's edition of Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) regarding Notice of 61st Annual General Meeting of the Company scheduled to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on 18th September 2020 at 10.00 A.M., record date and e-voting are attached.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For HeidelbergCement India Limited

Rajesh Relan Legal Head & Company Secretary

Encl.: a.a.



Commercial mining land buy may come under 1957 coal Act

SBI raises concerns on offtake, commercial mine demand

SHREYA JAL New Delhi, 25 Augus

Mer Dahl, 25 August Mer Dahl, 25 August The Centre is considering allowing land acquisition under the Coal Bearing Areas to acquisition under the Coal Bearing Areas to acquisition under the Coal Bearing Areas the stateholders' discussion on commercial coal mining heldby the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, the nominated authority for coal auction said the Centre could only assist, and that it is the niners who need to persuade the state govern-ment for land acquisition. The Centre is thinking on an initiative wherein land acquisition would be allowed have a state and the lead the state govern-ment for land acquisition such a state the optimate authority for coal auction and be given to private miners (Acquisition and be given to private miners on lease," said M Nagaraja, joint secretary of coal ministry and have and thority for coal auction of land containing or likely to contain out of the coal Bearing Areas (Acquisition and bevelopment) Act, 1957, provides for the acqui-stion of land containing or likely to contain ord deposits and for matres connected there-with. Under the provisions of this Act, land is acquisited tor government companies only for coal mining and activities strictly incidental to mining upposes. The Centre had started the coal mine auction mining purposes. The Centre had started the coal mine auction

Incentre latitization the coal mine auction – for commercial mining and sale by private companies – in June, Bidding terms were lib-eralised to attract foreign players, non-mining entities and large miners. In May, it amended the Coal Mines Special Provisions Act, 2015, to simplify the auction process and attract signif-icant investor interest.

Several stakeholders asked the ministry about time duration for getting environment and forest clearance. Cad iministry Secretary Anil Jain said the blockshad prior environment approval. "Environment nod now takes less time than it used to. I would like to assure that in the next 6-1 zmonths, time taken to get forest clearance might also get reduced," said Jain. Prabodh Parikh, deputy managing director of SBI, however, raised several concerns regard-ing the commercial antining, which could pre-vent lenders in funding the coal mining proj-ects. He said while the Centre has made the terms of commercial antining, which could pre-vent senders in funding the coal mining proj-ects. He said while the Centre has made the terms of commercial antining investor friendly, there are still major questions of the oftake of zeral stakeholders asked the ministry

HeidelbergCement India Limited

CINL 2564/21/R1958/LC042301 Regd. Office: tht Floor, Tower C, Infinity Towers, DLC Cyber City, Phase III, Courgarn, Harynan - 122002 Ph. +91 0124-4503700, Fax.+91 0124-4147699, Email Id: Investors.mcl@mycem.in

NOTICE

In the second se

percoli, memore may cash many cash many to decontransy. Therease, the remited e-volarg models shall be sidead by NSL: for volarg. The Members who have cash their vole by rendole e-volarg prior to the AGM may also appricipate in the AGM through VC / OAM/Molity but shall not be entitled to cash heri vote again through e-volarg facility available during the AGM. To case Member have cast vieto are resolution, the Member will not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-volarg joining the AGM and e-volarg during the AGM are cast vieto are resolution. The Member will not be allowed to change it subsequently. Detailed instructions for remote e-volarg joining the AGM and e-volarg during the AGM are provided in the NOLE of AGM. The volarg galation is the site of the Stagestore (AGM and e-volarg during the AGM and e-volarg facility during the AGM. A person, whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Durines mainted when are sound - of data should there shall on type entitioning paperses only. Any person, who acquises shares and becomes a member of the Company after the date may obtain the Login D and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sonding an equest to evoltagifted out, it howes an evolution all have 10 and password by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sonding an equest to evoltage mains out. It haves that cash are informed all cash and the voltar to evoltage into the Cubert dure may obtain the Login D and Password by following the instructions as mentioned all haves to achieve and the count the solution. In the week, II (havith is already registered with NSDL, for remote e-voling, then helse can use his/her oxisting User D and password boas shifter volta.

In The NOBOB D I Asian Le semanger response of the NSD. Corrented e-voltag, Iren holdshe can use hisher existing User ID and password to cast therivate. If you have any query relating to e-volting licelit (Lipesse refer to the Frequently Asked Questions (FAQS) and e-volting user manual for Shareholdes a available at the Downlaads sectors at www.eventg.nadl.com or contact at NSDL's bill free no. 1800-222-980 or send a request to evolting glical contact at NSDL's bill free no. 1800-222-980 or send a request to evolting glical contact in case of any prievance concreted with e-volting facility, please contact MS. Palaki Matter, Marager, NSDL, 4m Fioor, X' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, X' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, X' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, X' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, A' Trade Vierdi, Namada Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, A' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Fioor, A' Trade Vierdi, Ramata Mills Compound, Senapal Bapati Mare, Marager, NSDL, 4m Alarda (Senapati Babata), PAN, Namer, Senapati Habata, Panager, NSDL, Namer, Senapati Rade Senapati Rober, Senard Soury of the strate entificated front and back, PAN (self-attested scanned copy of Aedher Card) for registering email address.

registering email address. Please contact your Depository Participant (DP) for registe your email address and updating bank account details in

23 No

Da Pla

demail account, asport the produme usefullin account details in I you demail account, asport the productive advice useful your DP. ompany has fixed Priday, 11th September 2020 as the "Record Date" for determining the members eligible to receive final dividend for th 2019-20 and attend AGM. The final individend on equily startes, if declared ble paid to the members within thirty days from the date of AGM. Suther the

the purpose of deten financial year 2019-20 at the AGM will be paid For HeidelbergCement India Lt

Rajesi Legal Head & Company Se lace : Gurugram ate : 25th August, 2020

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$



Officials say the Centre could only assist and it is the miners who need to persuade state governments for land acquisition

Is the miners who need to persuade state governments for land acquisition the coal and thereby the validity of such mining projects. "We have seen in large projects like these that forest and environment clearance takes a lot of time. There have been publicly some concerns on these mines bying in the 'no-go' forest areas,''said Parikh. The Centre for Science & Environment in its latest report said: 'Of the 41 blocks put up for unction. 21 feature in the original No- Go lst.' The report noted that since 2015, of the 49 blocks cleared for coal mining, nine were in No-Go areas. No-Go refers to unfragmented forest landscapes having a gross forest coverage more than 30 per cent and weighted forest coverage mines. Th recent years, there has been a push to green energy in India. As a lender, the weight of the demand for coal from these projects,'' he said. The ministry officials said while renewable energy needs to be pushed, demand for coal from several sectors including power, steel and others will continue. Responding to the queries of several investors regarding the final list of coal blocks as some states such as Chattisgart were in talks with the Chattisgart government regarding the five will social from these protecting against the auction, the ministry officials said the discussion was going on. "We re in talks with the Chattisgart government regarding the five mines in the state that are part of the commercial auction. We will update the final list soon," said Nagaraju.



welfare

measures.

which has

winicreased demand, helped our economy revive and increased GST revenues. Ironically, the

Centre has not paid us a paisa of GST this fiscal. The first quarter of this fiscal is over,

and we are midway into Q2, but

notone paisa has come. My information is, and this

wrecurng or the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 31st August, 2020, inter-aila to consider and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter endec 30.06.2020. NAVIN JAIN <u>AVP (LEGAL) & COMPA</u>NY SECRETARY Place: Jaipur Date : 22.08.2020

I	FOR NVITATION FOR EXPRI (Under Regulation 36A (1) of the	A G ESSION OF INTEREST a Insolvency and Bankruptcy
nsolv	ency Resolution Process for Co	rporate Persons) Regulations, 201
Mor	RELEVANT PA ne of the corporate debtor	RTICULARS Poggenamp Nagarsheth Powertronics
Inal	tie of the colporate debior	Private Limited
	e of incorporation of corporate debtor	8" June, 1992
	hority under which corporate debtor is reporated / registered	Registrar of Companies, Ahmedabad, India under the Companies Act, 1956
Cor	porate identity number / limited liability	U72200GJ1992PTC017786
	tilication number of corporate debtor	
	Iress of the registered office and cipal office (if any) of corporate debtor	C-1/B 4402 PH-IV GIDC Estate Vatva Ahmedabad, Gujatrat-382445
	livency commencement date of	24 ^m January, 2020
	corporate debtor e of invitation of expression of interest	26/08/2020
	bility for resolution applicants under	Detailed Expression of Interest contains
	tion 25(2)(h) of the Code is available at	details of eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code and can be sought by errail at rp.poggenamp@gmall.ou and is also evailable at http://surresolution.in.
	ms of ineligibility applicable under tion 29A are available at:	Same as stated in (8) above
Las	t date for receipt of expression of interest	10/09/2020
	e of issue of provisional list of spective resolution applicants	14/09/2020
to p	t date for submission of objections rovisional list	19/09/2020
rest	e of issue of final list of prospective slution applicants	22/09/2020
eva	e of issue of information memorandum, luation matrix and request for resolution to prospective resolution applicants	19/09/2020
Mar	ner of obtaining request for resolution	All eligible Prospective Resolution Applicants
plar mer	n, evaluation matrix, information morandum and further information	will be sent documents to their e-mail id. For information applicants may
Los	t date for submission of resolution plans	email to rp.poggenamp@gmail.com 21/10/2020
Mar	mer of submitting resolution plans to	In electronic form and followed by speed
inte	rim resolution professional	post or by hand delivery in sealed cover
Esti	mated date for submission of resolution to the Adjudicating Authority for approval	12/12/2020
Nar	ne and registration number of the colution Professional	CA Dhaval Jitendrakumar Mistry Reg. No.
Mere	ne, address and e-email of the	IBBI/IPA-001/IP-P-01853/2019-2020/12845 CA Dhaval Jitendrakumar Mistry
Res	ne, address and e-email of the jolution Professional,	Address: 9 B. Vardan Tower, Near Lakhud
as r	egistered with the Board	Circle, Navrangpura, Ahmedabad-380014 Email Id: cadhavalmistry@yahoo.com
	ress and email to be used for	Address: As mentioned in Sr. No. 20
	respondence with the Interim colution Professional	Email Id: rp.poggenamp@gmail.com
	ther Details are available at or with	Details can be sought by email at: rp.poggenamp@gmail.com and is also
Det		available at: http://sunresolution.in/
	e of publication of Form G	26/08/2020 of creditors ("CoC") of Poggenamp Nagarshe
vertro	inics Private Limited (In CIRP) on 19"Aug	ust, 2020, the CoC members has decided to re
iethe	Invitation of Expression of Interest in Form	G and to extend the CIRP period for a period.
ninet ond	y) days. Hence, the above timelines are su 180, days, to be granted by the Honbli	bject to the extension of CIRP period of 90 day > NCLT, Ahmedabad Bench in the matter
igena	amp Nagarsheth Powertronics Private Lim	ited (In CIRP).
	For, Poggenamp Nagarsh	eth Powertronics Private Limited (in CIRI
	6 [°] August, 2020	CA Dhaval Jitendrakumar Mist Resolution Profession
	hmedabad	IBBI/IPA-001/IP-P-01853/2019-2020/1284


States for GST dispute resolution system

Punjab FM says not paying cess amounts to sovereign default

DILASHA SETH

New Dehi States will pitch for putting in place a dispute resolution mechanism in the absence of consensus over the com-pensation payout by the Centre at the meeting of the goods and services tax (GST) Council on Thursday. In what is expected to be a stormy meeting between the Centre and states, the latter will press for a vice-chairman post in the council, besides demanding full and timely compen-sation as "guaranteed by the Constitution of India". No compensation has been paid to States for the current fiscal, despite four months' compensation falling due under the bi-monthly payment "Wanking.

mechanism. While the Centre will likely ask states to borrow to make up for the shortfall in compensation cess collec-



June buy tion, states want either the Centre or the GST Council to borrow. In the first four months of this fis-cal, 22,940 crore has been collected as compensation cess, which is 33 per cent lower than the previous year. Increasing the cess period by another two to five years, widening coverage of compensation cess to include more goods and services, hiking cess on existing items and market borrowing to meet the shortfall will be among the issues that will be discussed at the

Source Ministry of Hearts meeting. Punjab Finance Minister Manpreet Singh Badal said the Centre has breached the Constitution by not pay-ing the compensation, which amounts to a sovereign default. "We are upset that India's finance secretary goes to the attorney general and gets a view that there is no obligation on part of government of India to pay compen-sation. Compensation is a part of the Constitution and I think this amounts to a sovereign default. India is not a

banana republic," he said. Badai alded that in case the Centre and states are unable to reach an argeement, there should be a dispute resolution mechanism. "This dispute resolution mechanism must be acti-vated and if there is a refusal at that level, any state has the right to move Supreme Court and take a lead opin-ion. That route is always open," he said at a press conference on Tuesday. He also pressed for election of a vice-president from among the state finance ministers, as mentioned in the saw. "Cooperative federalism:," said Badal, who claims that the Centre wese Punjab 24,400 core in compen-sation. Attorney General KK Venusonal

owes Punjao Consol and sation. Attorney General KK Venugopal has recommended to the Centre to Attorney General KK Venugopal has recommended to the Centre to allow states to borrow to meet the shortfall on the strength of future receipts from the compensation fund. Most states have opposed this. The Centre released 41.65 trillion as compensation to states for FY20, as against a cess collection of ₹95,444 crore.

'States should be allowed to levy, collect taxes'

Chhattisgarh Chief Minister **EHUPESH BAGHEL** tells Archis Mohan that he fears the Centre plans to get out of its commitment to pay compensation to the states for the introduction of the goods and services tax (GST) at the next meeting on August 27. Edited excerpts:

How do you plan to sustain is worrisome fo welfare schemes in Chhattisgarh if the Centre manufacturing states like Chhattisgarh, that at the next Contailusgami i the Centre continues to be tardy in paying states' GST share? True, it will become extremely difficult to continue welfare measures. We have put money in people's pockets in the state through our GST Council meeting on August 27, the Centre will look at doing away with the compensation.

Chhattisgarh CM

What is the way out? Will you protest along with protest along with other states? Should states be allowed extra borrowings from the market? Of course, notjust manufacturing states like ours, but should protest this. BHUPESH BAGHEL all states sh The larger point, however, is to look at whether GST has failed the states, and there is an

implemented. My view is that there needs to be a rethink on GST. We should return to states being allowed to levy and collect taxes.

There is currently a manthan. There is currently a manthan, a churn, in your party. Senior leaders have called for sweeping changes, and there are suggestions, including from Priyanka Gandhi Vadra, that the party should look beyond the Nehru-Gandhi

urgent need to address this. I believe there should be a review of how GST has been

FROM PAGE1

Still a long way... Employment generation should be the focus and fiscal incentives can be given to productive labour-intensive companies. The Central and state governments must also explore monetising assets in steel, coal, power, land, and railways, and priv-tising major ports to revive and crowd in privite investment.

this pools, into a narrowsy and part this main protects to review and crowd in private investment. According to the RBI, banks and non-banking financial companies (NBFCs) are losing their importance as primary finan-cial intermediaries for companies because they are now accessing capital and bond markets more. Nevertheless, financial com-panies need to shed risk aversion, which is impeding the flow of credit to the produc-tive sectors of the economy. "In all this, the usual risks are relegated to the background where they may be sin-isterly mutating – fiscal dominance, infla-tion; leverage, market failure. Meanwhile, the crisis presents opportunities and the shape of the future will depend on how well they are exploited, "the report noted.

they are exploited," the report noted. Macroeconomic deterioration will

impinge on the asset quality, capital ade quacy, and profitability of banks. quacy, and profitability of banks. "Regulatory dispensations that the pan-demic has necessitated in terms of the mor-atorium on loan instalments, deferment of interest payments and restructuring may also have implications for the financial health of banks, unless they are closely

2	35	S	UI	00	Kl	J				1	# 313	9
		8	I	1	7	1						1
		_	T	2			-				3	1
2	3		T	5			8			6		
			T				6	1	3	7	2	Γ
			T		4	1		1	š			Γ
		9	T	8		1	5	1	2			Γ
		5	T	i.	1	1					9	Γ
ş		-	t		3	3	4	T	-		-	
		3	t	4	8	1		1	ī	5	6	Г
in t	he	wak	1 09	f#h	¢p9	und	emi	c ha	s	/ery	easy	:
	7	3	T	8	1	9	4	5		k .		
-	8	1	2	2	4	1	1	5		oluti omor		
4		- 61		1	-	10	2	4				
4 6		1.1			14	0	123	-		HOM	/ TO	PL
4 8 9 9	9	4	3	÷	12							
4 8 9 7 7	8 8 9	4	117	-	-	5	2	-	F	ill in	the gi	id
4 4 9 7 2 9	8 8 3 9	4 0 1	2174		10 10	54	2 8	3	t	hat e	veryīr	٥V
4 4 4 7 7 8 4 8 4	9 5 8 3 2 4	4 8 1 7 9	1780		10 00 00	5 4 1 3	2 8 8 8	3	t e	hate very	the gi very r colurr /ery 3	0W

masked the consequent build-up of stress, but that should surface later. The stress test reported in the June edition of the Financial Stability Report showed non-performing assets could surge 1.5 times their March 2020 levels under the baseline scenario and

traditions in recent years?

NOT PAID US A PAISA OF GST

OF THIS FISCAL IS OVER,

OUARTER, BUT NOT ONE

PALSA HAS COME"

AND WE ARE MIDWAY

THIS FISCAL. THE FIRST QUARTER

2020 levels under the baseline scenario and by 1.1 time in a very severe stress scenario. could drop to 13.3 per cent in March 2021 from its March 2020 level under the base-line scenario and to 11.8 per cent under the very severe stress scenario. Therefore, both public and private sector banks need to be recapitallsed, as the capital requirements calculated on the basis of historical loss events "may no longer suffice to absorb post-pandemic losses".

RBI steps...

The 10-year bond yield fell to 6.129 per cent from its previous close of 6.165 per cent, after the RBI announced the OMO. Though the RBI chose to keep the element of surthe RBI chose to keep the element of sür-prise, bond market participants were cer-tain the central bank would chip in when needed to cool off bond yields. An OMO announcement also shows the comfort zone of the central bank, which should sta-bilise yields, said bond dealers. This is a good start. The market is now hoping and assuming it will do much more. The last devolvements and MPC minutes reaction of the market would persuade them to do more in the coming days, it is assumed," said Harihar Krishnamurthy, head (treasuri) at

assumed," said Harihar Krishnamurthy, head (treasury) at FirstRandBank. On August 5, the RBI planned to sell 830,000 crore through four bonds, including 18,000 crore of the new 10-year bonds. However, 14,637393 crore of the planned amount was unsold.

GST rate...

The scheme is open for profes-sionals now, she added. Earlier this month, the government had widened the scope of the scheme by doubling the upper celling of loans outstanding to 80 crore and including certain individual loans given to professionals like doctors, lawyets, and chartered accountants for business purposes under its ambit, apartfrom MSMEs. Till August 20, banks disbursed more than 41-tillion loans under the 34-trillion Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS), which was announced as part of the atmanitibar Bharat package. Stharaman said the govern-ment would consider easing the standard operating procedures for

standard operating procedures for ailing sectors such as tourism, hotels and hospitality, real estate and construction, and airlines.

dynasty for its next chief... Saiddhantik roop sekuchihbht bolteraheln (We can talk endl-essly on matters of principle on whether someone from the has given adequate importance to traditional festivals also. We launched the Godhan Nyay Yojana on the festival of Hareli, and recently festival of Hareli, and recently celebrated Teel Mahotsav. With Ram Van Gaman Path circuit, Kaushalya temple, Shabi temple, we celebrate the Lord Ram that inspires our daily lives. Indian tradition and culture are at the core of the Congress party, and there are times when this finds overt expression, and times when the sensities muted dynasty should become the party president or not), but at the current juncture there is none better than Rahul Gandhi to take over the reins Your state is promoting religious tourism by building a Ramayana circuit. Did the Congress lose the connect with India's culture and

this remains muted. Not just that, my government

After the episodes in Madhya Pradesh and Rajasthan, how apprehensive are you about the stability of your government? Any such attempt will not be easy in Chhattisgarh, given the numbers. In the (90-member) becaudy up (the Congress) "IRONICALLY, THE CENTRE HAS

Assembly, we (the Congress) have 69 MLAs, and our oppo-nent (the BJP) has a mere 14. INTO THE SECOND More on business-standard.com

"Some sectors such as tourism, real estate, hospitality, airlines have been affected dis-proportionately. Domestic revenue gener-ation is a concern, "Sitharaman said, adding the government was working with the Reserve Bank of India to ensure adequate europort to hanks.

the government was working with the Reserve Bank of India to ensure adequate support to banks. In the meeting, Sitharaman said struc-rural reform was a key priority for the gov-ernment and it would move fast on the Cabinet-cleared disinvestment proposals, including that of banks. The minister further said every announcement had a structural reform component with it, and the government was reachingout to indu-try to understand their concerns. "Structural efforms (are) key priority for the government, reflected in government announcement to address Covid-19 chal-lenges." Sitharaman said. On the private investment cycle, she said that in September 2019, the govern-ment had reduced the corporate tax rate but investments could not happen due to Covid-19. Tata Motores

Tata Motors...

Ideal Protects... The company has already taken steps to reduce debt. Chandra said. This includes threatment of the said the said the said ty FY22. The group will also look to unlock investments in non-core businesses, he said. 'Overall investments of the group have reduced by 50 per cent during this fiscal var, and we will continue to manage this ughty going forward.' Talking about the domestic passenger wholdes business, Chandra said all the new heides business, Chandra said all the new business, the and said all the new models — including the Nexon, Altroz, and Harrier – have been received well and this shows the investment has started paying off. Responding to a question on the pro-gences was underway and be would like it

process was underway and he would like it to conclude in the current fiscal.

Striger Venices (r*) obtaines, the said due process was underway and he would like it to conclude in the current fiscal. Equity analysts, however, were divided over the company's plan to reduce debt. Tit's a rail target" and not achievable unless Tata Motors lets go off a substantial stake in JLR, said an analyst. The other way could be a substantial equity infusion by Tata Sons. Others were more optimistic. The com-rany is on the right rath in terms of curting costs and scaling back capex. If the cycle picks up and a vacche is found, the balance sheet will look significantly better," said Aditya Maharia, analyst at HDFC Securities. There are expectations of the overall macrois improving he said alluding to economies opening up after the lock-domestic operations over thenext two years will not be enough to retire debt. It won't suffice even if they self stake in the PVbusi-ness. Both put together – operations and stake sales in PV – will at the most fetch them only (10,000-12,000) crore," said the analyst quoted earlier.

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

<section-header><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></section-header>	DESERVICE INFORMATION OF A CONTRACT OF	सिकी सुचना भी नार्सिय देव सुपर आहरेट दिवार (अन्यासेल ने) भी कार्य, गंव सेवपुर, भी रूट रस भग, बापल- 20026, स्वरू प्रसेश, हरिवा स्वापना वाचा पुरावे दे पर्य सुविध वाचा पुरावे दे पर सुविध वाचा प्र वा वा वा वा वा वा वा वाचा पुरावे दे पर सुविध वाचा प्र वा वा वा वा वा वाचा पुरावे दे पर सुविध वाचा प्र वा वा वा वा वा वाचा प्र वा वा वा वा वा वाचा प्र वा व	परि गरिशाय दुरुष्ट्राजा तिमिट उ भिक्रा स्वित्र प्रदेश प्रदेश किंग तिमेद से स्वित्र नारायण केंद्र प्रियम, प-3, कम्युनिसी सेन्द्र, नारायण केंद्र प्रियम, प-3, कम्युनिसी सेन्द्र, नारायण केंद्र प्रदेश केंद्र फ्रेंफ्श, महंदर्शती-11028 वे स्वादार प्रप्रक्ष होते केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश के प्रायम केंद्र केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र केंद्र प्रदेश केंद्र प्रदेश केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र केंद्र कामनी क्रांतियम केंद्र केंद्र प्रदेश केंद्र केंद्					
का ग्रांगे करते हुए उसल आगित्मक की भारा 12() के आगेन मांग सुप्रमाए जारी की थीं, जिसे मिनालेडिका अतार्थन के उसल पुरान्वारों के उसले की तिक्री के कि निर के सीत्र रही पर आग के काय, उसत युक्ताओं की प्रति की तिक्रि के 80 दिन के सीतर, आगे पुराना का/अध्या सुराही की लिंका रुक तरानू अनुसार आग, उपनाल किए गए अनुभी चाने, लासर, प्रमार प्रतादी युक्तने की गांग की गई थी। क जिसेपर का मांग स्थान स्वेदा सा मांग/ से अपना सा सोवजा 1 क्रिके जेन / दीमाती जेन, रोहिर जेन / अन-शिक्षल-2019 का सिके जेन / दीमाती जेन, रोहिर जेन / अन-शिक्षल-2019 का सिके जेन / दीमाती जेन, रोहिर जेन / 28-शिक्षल-2019 का सिके 134 134 22 21 (38.2020)	Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/Email: info⊜sircapaints.com NOTICE Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting of SIRCA PAINTS NDA AMITED (The Company), will be half on Friday, September 18th, 2020 at business as startion that the site of the Annual Meeting of SIRCA PAINTS NDA AMITED (The Company), will be half on Friday, September 18th, 2020 at business as startion the Notice of 18th AnAMI. The AAMI will be held frough Video Conference facility (VCI) Other Audo Wasan Means (OAMI) without physical presence of the methers, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (The Act), MCA circulars dated May 5, 2020	3 प्राणि सिवार्गि राजपता ने,278 अडरुए) आर्दसिक्तेम्बर् 2,400,000- 20,0000- 160,0	राक नियमं की आवश्यकतातुमार दिना किसी अतिरिक्त सुवना के कवित शेवरों को आईइपेएफ खाते में अंतरित करंगी। कृष्णया ध्यान दें कि उक्त नियमं के अनुसार आईइपेएफ में अंतरित गैरदावाकृत लानांश राजि एवं डोयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। कृष्णया ध्यान दें कि इस तरह के अंतरण पर, शेयरबारक कांतरि शेयरों को लागांश राजि आईइपेएफ से दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विररण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है। इस सम्बम में किसी भी जानवारी / राषटीकरण हेतु, राम्बद्ध शैयरवारक कम्पनी के langeter cardifecantedable					
प्रसारित का परिप्र: एगोर २ ३३० केलेक स्वारे जोवल विलट निवली – १९३८ की हिके वर्ष ना से सी होत केले के नाम सा (मेलेक 19 220 जो ना को दिवारी चुने-नार्वे से 400 सीमन – प्लॉर ने 386 साम - सिंहे के देखेल – राज्य के आदि के दिवारी के दिवारी - राज्य ना के दिवारी - 188 के दिवारी - 188 साम - राज्य ने स्वारे ना केले ना करी / जीवन के दिवारी - 22-जनवारी–3200 - राज्य नी प्रसार के दिवारी - 22-जनवारी–3200 - राज्य ने प्रसार के दिवारी के दिवारी - 23-जनवारी–3200 - राज्य ने प्रसार के दिवारी के दिवारी - 23-जनवारी–3200 - राज्य ने प्रसार के दिवारी के साम के दिवारी के साम 24 में दिवारी - 24 के दिवारी - 24 कि 25 के दिवारी के साम के प्रसार के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी - 25 के दिवारी के दिवारी - 25 के दे दे के दे के दे के दिवारी - 25 के दे के दे के दे के दे के	12,2020 (collectively referred to as Circulari). In compliance with altersaid circularis, the Notice conventing the 15th AGM and Annual Report for the Financial Year 2019-2020 has been sent on 24th August, 2020 to all the members whose small Dis are registed with the Company (Depository Participantis). The Company has engaged the services of KFin Education (Section 2010) and providing its interfees the facility for casting their voltes (Private Limiter (KFin)). The remote without the casting their voltes by through the remote e- volting patients and for participating in the 15th AGM through (VC) (DANM) facility The remote avoid patient facility and an end on 17th September, 2020 (Dinoday) from 5:00 AM and end on 17th September, 2020 (Thursday) at 5:30 PM. The remote e-wording patient had to be allowed beyond the altorisaid cite and time.	4. ६—मितामी अनुपोदित 'खंग प्रदाना मैलर' ड—गोवारीलंट देनांसोजित विकिदे (अंतिलग दावर') द्वार' राष्ट्री राज है जैसी है', ''ज देनी की 'ओ' राज बिक के आर पर का जातित्व की पार्ट्मी । जैसा प्रदेश प्रदेश के प्रतिक्षा प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की की सार्प्य का प्रतिक्ष की प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष की की सार्प्य कि जी की सार्प्य कि प्रतिक्ष की कि की सार्प्य का प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष प्रतिक्ष की की सार्प्य की प्रतिक्ष के प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष प्रतिक्ष की की सार्प्य की प्रतिक्ष के प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष की की सार्प्य की प्रतिक्ष के प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष कि कि क्षेत्र प्रतिक्ष की की सार्प्य की प्रतिक्ष कि प्रतिक्ष प्रतिक्ष प्रतिक्ष की प्रतिक्ष की कि क्षेत्र की कि क्षेत्र की की सार्प्य की प्रतिक्ष पर : उप्यतिक्ष प्रतिक्ष : अपने क्षेत्र कि क्षेत्र की कि क्षेत्र प्रतिक्ष : अपने क्षेत्र की कि क्षेत्र प्रतिक्ष की क्षेत्र के क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र की क्षेत्र की क्षेत्र के क्षेत्र पर : उपनीकिक क्षेत्र : उपनीकिक क्षेत्र कि क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र के	को <u>investor.pul@pearlqiobal.com</u> पर लिख सकते हैं अवजा कमनी के राजिदरार वे सेयर हासकर एसेंट – मोस्स लिंक हन्यादाम इसिया प्रायुदेत सिमिदेव, नोबल प्रावदत्मा पाली मजिल, प्लॉट एमराय 2, सी–1 ब्लॉक एलसराली, साविजे मार्केट के निकट, जनकपुरी, पई दिल्सी–1 110058 फोफ 011–49411000, ई–मेस <u>देखी162011Attime.co.in</u> से संपर्क कर सकते हैं। कुरो पर्ज ग्लोबल इं <i>क</i> रपुरीज लिमिदेव दिशांक : 25 अगरल, 2020 स्थान : नई दिल्ली कम्पनी सविव					
बोधन तरती, देखीग : शारत और सालो, पूरं : हारत और प्रि. साले मांग हैना : शिना कुपरा की मांग केंद् व्यानिंका सामी देखी रहा में त्यान पर, मुला तिमा प्रा का केकिश्वान तरा सालप (हाला नंदार ठ. त्या अंस्स a) खीला संप रा, उसी मत्या ठ. दिला : मोंग नंदा ठ. दुवीं नं जाता कि साल सिंह, मिंगम : बॉम्ब नेतरी केंदा मांग नंदा रा, उसी मत्या ठ. दिला : मोंग नंदा ठ. पूरी : हारत और तात सिंह, मिंगम : बॉम्ब नेतरी केंदा 10 जीटा : जबकि इसमें उपर वर्णित कार्यारा वडवाचा रात्ती कुशने में आसलस रहे हैं. एतटुदारा कॉलारों की सिरंग ठ से और प्रत्यासाध्या की सूचम दे जाती है कि असित के आसंसित कि असाल साल सिंह मों वा मांग करते हु उस उस प्रा ती कर सावमारा की सुचान 1 कि हो कि असित के आसंसित के किस के साथ सावस के सिंहम ठ से साथ मार्टना उस अमेगियम से पारा 14.9 के आने प्रताक प्रदात सीकरों की साथ साथ स्वार दास उपर सील संसाधीता / प्रतिमुद्धा तासीत का सार्वशित क्या रायरिक्त विकारी को प्राय कर दिसा है। शिवेष रूप से कर से उपर सीनी कार्यारा से सावसित की प्रा रात्र प्रे रात्र साथ साथ साथ साथ साथ सिंहमी / जीहमू	The Cut-off Date for determining eligibility of members for voling through Remote evoling and at the AdM. Is (Fiddy) 11 Negetmeber, 200 Cut-off Date) only shall be entited to vole through Remote e-voling and at the AdM. Any Person who becomes an amember of the Company after displant of the Notice buthods harers as on the Cut off date is Fiddy. It the September, 2020, may obtain the Login ID and password by sending request to emeriding Self March Common. The Company after displant to the Notice buthods harers as on the Cut off date is Fiddy. It the September, 2020, may obtain the Login ID and password by company the displant company and the Self Company is the Self Self Self Self Company. The Self Self Self Self Self Self Company is the Self Self Self Self Self Self Self Sel	देग्री रसोबल कैपिटल लिमिटेड इंग्रेल स्वार्थ कार्य व्याप्त अगर से क्यो का स्वार्थ को स्वार्थ का स्वार का स्वार्थ का स्वार्य का स्वार्थ का स्वा स्वार्य का स्वार्य का स्व						
आसिता के संसंध में आई भी संकल्डल आसित के प्रमार के अमैन होगा। च्यान : दिलो : हरता./- प्रसिद्ध अभिनेते : हरता./- प्रसिद्ध अभिनेते : सिंह : क्र-कळ : कारेड सिंहमुलमा चन्नते (हरिवा) सिनिनेट : आसित प्रदेश : किसी, प्रजी : किसी, प्रजी : स्वराय:: अपर आप कार्ट करों : रेप्रदेश : क्रांत : किसी, प्रजी : तर : 24, सेनापति चपर मर्ग, यार (सिन्म), मूर्व-अध्यक्ष चाला चाला : क्रिंते तत : देवी प्रजा : स्वर. चला, मूर सीरिव सेन्टर, निकट रिया मान्म स्वाल : क्रिंत : क्रांत : देवी : स्वर. : स्वीर सोनक सीपित सेन्टर, निकट रिया मान्म सोना : सान-स्वाल : सुनेत तत : उन : स्वाल : स्	Heignise: 1803/3554001. Motions is also headly given that gursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and Regulation 42 of SBH (LODR), 2013 Signiciatin cirks thereardors the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain cosed from Friday. This September, 2020 In Friday, IBN September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual Ceneral Meeting. The names of the members appearing in the Register of members as on Friday, 11th September, 2020 ("Cut-off Date") shall be considered for the purpose of E - Voing for the purpose of the 15th Annual General Meeting of the Company. Place : DELHI Date : 24-08-2020 Company secretary & Compiliance officer	मा. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #. #	A. साधान का (भारत्र का), (a), (a), (a), (a), (a), (a), (a), (a					
)हिस्सि जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड (धूर्वत सोग कोथ स्टीपरि मिस्टस क्रिटिड के नम से जात) (cm - 230150-1698-05218-16 कार्यासर : यूर्वीएन-6. इन्यासल 2.1 साराय्यन सेव, नई स्लिती -11001. काने नस: :111-23111524, 2322705	हाईडलवर्गसीमेंट इंडिया लिमिटेड Cht: L2642H1058FLC042301 पंजी. कार्यातय: अवीं मंजिल, दॉवर सी' इनफिनिटी टॉवर्स, डीएलएफ साबवर सिंटी कंग 11 गुरुयम, सुरियाण-122002 Ph, +91 0124-503700, Fax +91 1024-417995, Email Limestors,md@mycem.in: Website: www.myemco.com	वर्ष पका थे. 1.2.N3L.2000000701005 राष्ट्री 4.3.5.2.N3L.200000070105 राष्ट्री 4.3.5.2.2.N3L व्यक्ती प्रयोग थावा ते प्रवर्षमा साथ प्रायमा वर्षा प्रायमा वर्षा प्रायमि निर्धाण ते प्रवर्षमा साथ प्रायमा वर्षा प्रायमा निर्धाण ते प्रविद्य प्रायमा वर्षा प्रायमा वर्षा त्र प्रवर्षमा साथ प्रायमा वर्षा प्रायमा निर्धाण ते प्रवर्षमा साथ प्रायमा वर्षा प्रायमा निर्धाण ते प्रवर्षमा साथ प्रायमा निर्धाण ते प्रवर्षमा साथ प्रायमा निर्धाण ते प्रवर्षमा निर्धाण ते प्रवर्णमा निर्धणमा निर	3. निरावन का ताथ - 25.05.000 1111 1. ई-नीरावर्ग की तिथि : 29.09.2020 (3.00 आर्मिस मुख्य : स. 79,15,800) (१पपे पच्या ताथ करे 39.0 के 4.00 यंवे अप, के बीप) के अपनी मंदी (19.04) के 40.0 वर्ष अप, के बीप) 2. निरोधन की तिथ : 25.09.2020 3. निरोधन की तिथ : 25.09.2020 वर्षित मुख्य : इ. 50,000/- (रुपपे पच्या तावा मांग)					
र्ष नेतः investorginvance@jekt.co.in के सवाहर: www.jekt.co.in सीडियो कांग्रेजेस (यीरसी)/अच्य आडियो यिजुआर मीन्स (योएये)एम) के माध्यम से 35धी जापिक सामान्य बैठवर्ग (एजेएम) के आयोजन, बही यंदी तरावा अत्मित्त तामांय बैठवर्ग (एजेएम) के आयोजन, बही यंदी तरावा अत्मित्त तामांय ये संबंध में सूर्यना 1) जम्मती के सरकी की एजीपर (प्रोपिक जी प्रथान में सुप्रिक्त व्यवसाय के निमारन हेतु सुप्राय 23 तिर्वेश राज्य को प्रयोग (प्रोपिक जी प्रयान में सुप्रिक्त प्राया 2003) के लगू प्रायानों जावा उनके नर्जन दिवरित निपामलंति के तेकी (स्त्रीकल्प यासिव एव प्रकटीकल्प आवरावस्तार) विनियमलंत्री ठाउठ के साथ पठित काजीर मासाय (प्रतारी) द्वाचा जावे करतने जावेदन संत्र प्रध्यक्र का आजीर मासाय (प्रतारी) द्वाचा जावे करते का जे के स्वित के स्वार के स्वी प्रयोग के माया (प्रतारी) द्वाचा जावे का स्वीन के उठित उठित एव इस देवठा मा काजीर मासाय के आयोजित वे प्रारग) ने प्रतारीक वाप्रणी। जावें कि रिवेश पुज समस्त सरको के छेसि की यापारी, किस्ते देन्से को के बाप्रणी.	मह साथ पूर्व संबार दिनोंक 18 अगरत. 2020 के निर्राट में है किसले काल साने चुलित किया था कि निर्मानिय मानदों के मंत्रालय हाता राती साथाना परिष्य नं 1.4/2020. 17/2020 और 20/2020 मान्या: दिनोंक 8 उम्रेल 2020. 13 उसेंदर, 2020 और 20/2020 मान्या साथिती मांत्रा मान्या दिनोंक 14/2020. (प्रत्नीप्रेश ग्रेज परिश्वनों) और नार्रायों प्रतिमंत्री में किस के उन्दारात ने में अपनी की वार्जी प्रार्थिण साराप्तनों के प्रार्थ करीं निर्मानां के प्रतास के अनुपात ने में अंतनी की वार्जी प्रार्थ का प्रतार का प्रतिमंत्र मां प्रतास के अनुपात ने में अंतनी की वार्जी पार्थिण साराप्तन के वार्ज मांदा साथा पर सारदार्थ की नीतिया व्यक्तियों के बिसा वीडियो कॉलर्डिंग (वीसी)/ अन्य ओडियो विद्युवन साव्यमी (ओएर्सिप) चुडियो के माय्यमी कॉलर्डिंग (वीसी)/ अन्य ओडियो विद्युवन साव्यमी (ओएर्सपा) चुडियो के माय्यमी कोई की लिये: अन्वेजन की सिंदों देशर प्रतीप्र की पुराना वीसी/ अंत्या पुराने के ब्राह्म वार्ड के द्वारा के ब्राह्म के दिनों के विद्युवन साव्यमी (आरंप्रीपार) के ब्राह्म के ब्राह्म के ब्राह्म के दिनों के विद्युवन साव्यमी (आरंप्रीपार)) को की सिंदों, उन्तेजन की सिंदों देशर प्रतीप्र की सुधना वीसी/ और प्रती के अंत्र 2020 मां प्रतार्थ के जान सार्व के कि नित्य के विद्याप्त या जीतम के तिरक्ष ई-तिक क्षात्र के जा प्रती 2020 मां परिवर्ध की प्रती के प्रति के दिनों के विद्याप्त के दिनक ई-तिक प्रार्थ के जा जाते प्रतीपर पर्वीक्ष या जान स्वार्थ के के नित्य कितिया विद्याप्त के प्रतीन में के जीत्य प्रतीपर परिवर्ध या प्रतन के सिंत के सिंग कितिया विद्यापत विद्याप्त के जा जुती है वित्त के इन्त के उन्तर की उपसोंका प्रतीपर पर्वीक्ष या जान से के सिंत कितियित कि क्रमणन में केनी के दलिवर्दा देशी प्रार्थ के जा क्षात्र वित्तवेत प्रतीप्र या प्रती का से के सार्व कितिय के के ब्राह्म के व्यात्यन में के क्षात्र की क्षात्र की का सार्य	4. 1. औ कृष्णा एन्टरप्राइनेव (''कर्मदार'') 2. भी विनोद 3. भीमती प्रमीसा देवी (सह-फर्मदार) म. 1.NCGCKKDTL0000003345 सं. 205. माहल मुदायमयदयक.	1. ई-नीलवर्गा की लिपि : 25.09.2020 (3.00 आर्थिला मुल्प : स. 41,24,525 (रुपये प्रश्न अंदा, 41,00 सर्वे अप, के बांग) अर्थनाल मिली : 4046 संव का अपने की अर्थनाल मिली : 4046 संव का अपने की अर्थना मिलि : 25.09.2020 आर्था मिला : 40,00 संव मार्थ). 1. ई-नीलवर्ग की लिप : 25.09.2020 आर्थना मुल्प : स. 14,65,200- (रुपये पार मार्थ). 1. ई-नीलवर्ग की लिप : 26.09.2020 आर्थना मुल्प : स. 14,45,200- (रुपये पार मार्थ). 1. ई-नीलवर्ग की लिप : 26.09.2020 आर्थना मुल्प : स. 14,45,200- (रुपये पार मार्थ). 1. ई-नीलवर्ग की लिप : 26.09.2020 आर्थना मुल्प : स. 11,45,2,200- (रुपये पार मार्थ). 2. केपार्टल मिल इंग राज्य की रुपते : 30,020 (3.00 आर्थना मुल्प : स. 11,4,5,2,300- (रुपये पार मार्थ). 2. केपार्टल मिल इंग राज्य की रुपते : 30,020 (3.00 आर्थना मुल्प : स. 11,4,5,2,300- (रुपये पार मार्था प्रत्यी : 14, 11,46,000- (रुपये पार मार्था प्रत्या : 14, 11,00,000- (रुपये पार मार्था : 14, 11,00,000- (रुपये पार मार्था : 14, 10,00,000- (रुपये पार मार्थ : 14, 10,00,000- (रुपये पार मार मार्थ : 14, 10,00,000- (रुपये पार मार मार मार					
3) ईनेल पत्तों के पंतीलपण, अस्तानीकरण की तिि 3) निंत सर्वयों के सात मीतिक स्वान में रोतर हैं, लिनेने कप्तनी के साथ अपने ई-लेस पती का प्रतीकरण, अस्तानीकरण नहीं करताया है, उनसे अन्द्रेशा है कि ये उसका पत्तीलरण, अप्रातनीकरण इसके निरीहरा एवं प्रातमार प्रोतन्द्र (MicRY) की <u>manafrágBéthén com</u> पर अपया कप्तनी की <u>imstopresson@Better</u> 50 पर के नाम और पाया के उत्तरवेष्ट्रप्राह स्वारमीरा उन्नुप्रेशा यह की प्रती ने साई की त्वल-सर्वातीय प्रति साथ अपनी की पंतील्हान प्रात्म के साथ की प्रती ने साई की तिन्द ने बाद स्वारोग (तेकी क्षेत्र प्रति साई प्रति कर आई की कार्य, साथाये द्वलायी) की तन-सर्वातीय प्रति में कार करवा ते। 3) जिन सरदा स्वार्थ के साथ अनीकि प्रति में प्रेत कर क्या ते। 3) जिन सरदा स्वार्थ के साथ को कि प्रति के प्रात्म के साई ने प्रति कर के साई क्रमों है स्वा को प्रांत के साई अनीकि प्रात्म कर क्या ते। 3) जिन सरदा में तिने पाय उनका की कि साथ अनीक्ष कर क्या की के साथ अनिए/अयराज करवा है, नित्तने पाय उनका की कि साथ अनीक कर कार को के साथ कि प्रति के प्रत्न की के साई कानों है साई भावेति साथ करनीक कार कार्याक कार करवा है, निताने पाय उनका की कि साथ अनीक्ष के साथ कर कार के ने 4) इनोतिय के मायस नीक कि साथ की कि साथ अनिए/अयराज कर कर के तिकी के साथ के की कि की	1) वाशिक रिपोर्ट 2018-2020 कॉम्पी की तेरसाइट www.mycenoco.onl रहीक एकार्सज की कंपसाइट www.bendia.com जेंर www.enviola.com जेंर से साम रिप्तर्वादेदीज दियोजिट दी तिमिटेड ('प्रमुस्तवीएल') www.enviola.com राप सी प्रयत्ना है। कॉमरीज प्रबंधन य प्रसासनिक) नियमावती, 2014 के साथ परित अगिनियम की धारा के प्रावधमां जी र रहेर्टटीट्टूट अधि कांपनी से सुरुदीज अगि हिविया सारा जासी सेवी (एकार्मोजेसा) सिनियमां, सॉफासल पानक 2 के सिनियम 44 में एप प्रतिया (रिट्र-दोटिंग) (एजीएस से पारते) को रई-पोर्टेन (एजीएस के दोरान) के माप्यम से इन्द्रियानी कर सर प्रथान ये दारान की सुरिवार प्रसारकि प्रतान के माप्यम से इन्द्रियानी कर सर प्रथान ये दारान के सुरिवार प्रसारकिया दारा प्रदान की वा प्रदेश में कि प्रस्ता था रिपोर दु-तोटिंग (एजीएस से पारते) को सुरिवा प्रसारकी प्रतान हाम प्रधान की पार्टस्तरी पर सेवार दिन्द्रानीकि रूस सेवाने ये दारान के सुरिवार प्रसारकी प्रतान प्रदेश में का प्रायत्न की प्रायत्व र सिर्वार हो रास ने दी को सुरिवार प्रसारकी का राज राम ती का की प्रायत्व र सिर्वार की रास ने दी को सार्ट्र दार स्वार की प्रायत्व पर सार्थ का की प्रायत्व र सिरा है। अबकी के दोरान सदस्य इन्द्रियुतिक रूस से अपने योद उत्यास रासकते हैं। इसके बार सिर्ग 	 त्रवाले माग) कण 20.0.2000 से प्रदेशन भाषी कगत नवाले माग) कण 20.0.2000 से प्रदेशन का किए स्वरूप के 50 मसंकल कीप्टल लिसिटेड प्रतिभूव लेनदर को बेबसाएं अभाग Capriglobal.in/succion/ में प्रायाणित लिक का सन्दर्भ लें। की की सिद्ध निषय एवं कती के लिए कृष्य के 50 मसंकल कीपटल लिसिटेड प्रतिभूव लेनदर को बेबसाएं अभाग Capriglobal.in/succion/ में प्रायाणित लिक का सन्दर्भ लें। सामजि को किश्च 'वाली देवके है तेक है आ हे रखते है तथा उत्पक्ष राजि आधार'' पर यो करते है। अचीक किश्च 'वाली सिर्क के हा स्वर्टन लिस स्वर्थ मा प्रायाणित लिक का सन्दर्भ लें। 						
a) तरस्यों के पता रुपीएग की गुम्ला में तुमीबद्ध वावसायों पर इन्केश्वीकि कोटिंग सिरसर (हवेटीए) के प्रायम से अपना के उस्तर के आवस्त होना, जानसिक रूप में, नीतिक रूप में तरित के प्रारण करनेवात सरस्यों ता प्रारंत में, ना ना सरान बार ने की विधी का अदलेख एगीएग की गुम्ला में उपास्तब है, जो कि करनी की बेर साराद न नानकळ्ळांकिदार प्रारंत में पास्तव होने के साराद न नानकळ्ळांकिदार प्रारंत में पास्तव होने के साराद न नानकळ्ळांकिदार प्रारंत में पास्तव होने जा सारा में प्रारंत के ना प्रारंत में सारा से के सारसराज, जिन्होंने लिंगेट इन्सीय की सारा प्रारंत में वार से के सारसराज के सारा सारो के साराद न नामकळ्ळांकिदार प्रारंत में पास्तव के सार के सारा में प्रारंत करना के प्रारंत के सारा के सारा में प्रारंत के सारा पालिक से पात करना/आरादीए होनितिटी पार्टिसिर्द्धावींसीर्मसहात के के रुपया पालिक से के पात करान/आरादीए होनितिटी पार्टिसिर्दधावी ही सिर एत निमालीतिया की के उत्पार पालक से है दे रापीएस की पालम की दिना दी सिर पाल कि की के सारा पालिक से है दे रापीएस की पालम के सारा के हिना के सार पालक के सात कर सोयन के के सिरा कराने ही सिर पालन की नामित्वा आरातीलिव अन्द्रीनी का पालन कर सोयन के के सिर करा के सात है स्वान के सात के की स्वा 1 तमा पाल पालक मुंचान हे से क्या के बी सी 1	एजीएस से पहले सिमेंह ई-नोटिंग हास अपने सेट कालने वाले सदस्य सीली, ओसरीपुरा सुविधा के माध्यम में से साल राज्य के देलील एजीएम के सेराल उपलब्ध ई-नोटिंग एविधा के माध्यम से दोसार उपले तोट नहीं डाल सकते । एक सरस्य हारा एक प्रस्ताप से रादे राज्य लोग के बार, सरस्य इसमें किसी प्रकार का परितंन नहीं कर सकते हैं। लिगेट ई-नोटिंग, एजीएम के जुड़ने और एजीएम के दौरान टू-नोटिंग के लिएन सिराल निर्देश एजीएम के जुड़ने और एजीएम के दौरान टू-नोटिंग के लिएन सुवीर एजीएम के जुड़ना में सोंग। व्यक्ति तिलके नाम कल-जीएन-डेट ताक विशोजिटते द्वारा बनाए राए लामावी स्थानियों के जेल्डरन में या सदस्यों के रोजिटरम से बन्हें, जेलने प्रारंग के अनुपात में मैंगे। व्यक्ति तिलके नाम कल-जीएन के दोरान ई-नोटिंग सुवीधा प्राप्त कर्म के पत्र होंग। व्यक्ति तिलके नाम कल्ड-जीएन के दोरान ई-नोटिंग सुवीधा प्राप्त कर्म के पत्र होंग। क्रन्टन से या आर एजीएम के दोरान ई-नोटिंग सुवीधा प्राप्त कर्म के पत्र होंग। क्रन्टन से या अस्टरया न रहने वाल से स्वराद झर सुपान को केवल जालनकों के उन्देशन में ने और एजीएम के स्वेत्यहा सुरान की केवल जालनकी के उन्देशन से ने स्वेत्र होंग। व्यक्ति ति स्वर अन्त से स्वेत प्रारंग के नीक्ष्य ना से स्वरक्ष झर सुपान को केवल जालनकी के उन्देशन में साल होंग। क्रिय्स ना स्वर सान मा को और पर पान करा ना से राज्य हो साल कर-डे ताक से क्षा स्वर्भनी के स्वर कोन्सी के साह	भनेविदेशिये, तेरवर्क समयव, सिरदय के आत्र वार्थ प्रवर्ष भव्यां आहे के हिए उपारची करीं को सिरवा सिरा में ने प्रवर्शने पर के सार के साम कर साम कर साम के साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम के साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम कर साम के साम के साम के साम के साम के साम के साम कर साम के साम के साम के साम के साम कर साम क						
9) लामासे एव उसके पुराता रहु बावे बया ३०) करपी ने सितीया का 21542 हुत लामांग पर सारस्यों की हकतारी नियांतित करने के लिए कुल्सावित्रार 11 सितंबर 2220 से कुमवार 22 सितंबर 2220 सितं 18 लाम से किसी कि की सितंबर के अप्रेन सारस्यों को स्तांमां का मुप्ताना 16 सितंबर 2220 की कार्य सामये के स्ताय सितंकरां का त्रारा तो सारमा की स्वार्था का सितंबर 2220 की कार्य सामये की स्ताय सितंकर कार्य में प्रेराजे के सामये की स्वार्थ की आपार पर तथा मीतिक रूपने में प्रेराजेत्वर दात दाता तो सारमा की स्वार्थ त्यार्थ का स्तारम किया यागा लिसका नाम मुख्यार 11 सितंबर 2220 को कप्पत्ती के संसार यो की सितंका में मौजूद होगा। 1) संबद सर्वुसर्ग के भुत्यार, यो सदस्य अपना बैंक खाता विश्वन अरता युवे है. उनको लामां का मुप्ताना इन्द्रेट्रीनिक सित्री के मायम ने किया यागाला। जिन	भी सुराम में वॉलिंग अनुसाम निर्देशों को अपनाकर और evoling@nsd.coi को अनुरोध मेकल स्तीन-इन कादवी व पासकर्थ पास कर सालते हैं। हालांकि तर्व कर स्ति से ही रिपोर ई-वॉटिंग के लिए रागरसंजेएत के साथ पंजीवृत हैं तो अपने योट डालने के लिए अपने मेजुरा गुजर आईचे या पासकर्थ का प्रायोग कर सकते हैं। 'दे-वॉटिंग सुविध से संसिति किती पुजराक के मानले में पुरावा सुराम गुडे जाने वाले प्रारम (सर्पलप्रसुद) और evoling@nsd.coi गए र डाउनतोड संसलन में उपसब प्रारम (सर्पलप्रसुद) और evoling@nsd.coi गए र डाउनतोड संसलन में उपसब प्रायसांत्वर के लिए व्यक्ति के साथ के स्ती में स्वीतिक के दोल की 'ने. 1800-222-890 पर संसर्क कर या evoling@nsdLooin पर आनुगेवा मंदी 'चे-वॉटिंग सुविध सं संसंधित किती प्रारक्तर के लिए क्या सुप्री प्रत्नेची मां, प्रबंधक एनएससेएल, मौमी मंजित ए ट्रेड बरक काला निस्त कमायंड, संतमामी सपर माग, लोवप एंस, मुझे 40001 डे-ने पर 'प्ररक्ता के स्तान के क्या के स्तान से रहेत की	शितारा साथ सोग अर्थत करें खेलो अनिम शितार है 10 जिस्ट के भीतर लाखा जाते है तो ; 12. एक सा लाख में पूर्व भोती स्तारा को सीनी सार्यवारा को स्वान पूरा आंदति साथा गये 13. 4-वेलावी प्रक्रिया कर दिने के जुराव खाद व्यापा राषिवारा र 1-तेला ठा अधिकृत त्रिधि दिल्ली-110005 त्या रोख प्रदात के पार 1-वेलाती ठाळिया में सपल सॉवियतार स्वान से क्या 16. सपल सॉवियला कर मो अल्प क्या में तेले पर सविव जीता का 25.0 (देश्यत से ताला सिंहा) कियो ठाँ राष्ट्र सार्य सार्थ का प्रार्थ के सार 14 ने पर सविव जीता का 25.0 (देश्यत से ताला सिंहा) कियो ठाँ राष्ट्र सार्य सार्थ का प्रति को सी सीती स्ताम से राष्ट्री की जीई राष्ट्र सार्य का स्वान का पुरुष कियो से सार्य साथ सिंहा साथ से राष्ट्री की तो . सपल सॉवियला ने सिंहे पर स्वार्थ के सुरक्त प्रक्रियतों का स्वा प्रवास का ती सीता 10. साथल सॉवरायला के सिंहे पर स्वार के सुरक्त प्रक्रियतों का स्वा प्रवास का सिंहा की ता का साथ मा तो सार्य के ठीर साथकि को पुरुष कियो साथ राष्ट्र प्रवास का तीमा का साथ साथ सिंहा की साथ साथ साथ सिंहा की साथ साथ साथ सिंहा साथ साथ साथ साथ साथ साथ स्वार्य का ती का साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ सा	लोवमी बेली का अनित समय प्रश्नेक बार रकता ही। 0 मिन्द बहु ज्वांगेगा। भंकी केवल राजे के द्वारा लावन पंते मां जोत कोयोंगे। मारी, केठी मलेकल कैलिटल लिटिस्ट, कंवीक कार्यालय भर्षटर, उंडी, दूसरी मॉलिस, पूसा रोड, नर्न लिह प्रश्न दा सारे करें, जी की अनित सोंदेश दा रोजा के प्रीष्ट 5-4 का हा करेगा। त के दिन चम्च बल्का लोग राखा पेग 25% पति केठी मरोबल किलिटल लिस्टिट के भया में जीडीले ये में युक्त करने पर विद्वी सिरल कर दी जायेगी और परले से जमा राति (ईएपटी सॉटिश) जल कर					

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 24.08.2020

प्लप्सचीएल, सोमी माउल, ए टूड बरू, करखा ।लाज करमाउल, राजा से संपर्क लॉडप एरेस, मुर्दे 40001 ई. ²-लंड • evoling@sal.02.in से संपर्क करें, टेली नें, 192224994545 / 1800-222-989 यदि आपस के -र्जन पता आरटेप्ट, शिसोजिदरी प्रतिमानी के साथ पीजेषुल नहीं है तो आप पीजटर करने के लिए भी के दिए पर निर्देश की भाषता करें: गौतिक धारिता से -जिय पता विकटर करने के लिए भारतियों नें, प्रैरायसक का नाम, सेंपर प्रमाणमंत्र की लंकेनड प्रति (आगे व पीछे), पैन (पैन का के ती व-स-वापती सर्जनक प्रति), आप (आपस) की स-स्रत्यापित स्वेन्ज प्रति) संतुर प्रक्रियों के प्राप्त कर की स-स्रत्यापित स्वेनड प्रति) स्वेत्र पुर प्रिक्रिया अनुपार अपने क्रिस्ट वाते में का तीतिक धारिता अपने की द्वीरा द्वारा वर्त्त प्रेर प्रक्रिय आपने हु-तेल पत्ता तर्जिस्ट करने के लिए अपने क्रिसीटलें प्रतिमानी (क्वीप) से संपर्क करें। बीतिक धारिता अपने किस 2020 सी 'सिर्फ के देश' के तया हु-तल पत्ता तर्जिस्ट करने के लिए अपने क्विसीटलें प्रतिमानी (क्वीप) से संपर्क करें। विराय अरदारी को जुस्ता हिन्या जाएगा। हॉल्सर दा से विकट 2020 सी 'सिर्फ के ट्राय त्राय ता कि हा है। त्रत्या का त्र विराय अत्रित का जुस्ता कि या जाएगा। हहर्वता/, 11 सिर्फ 2020 की 'सिर्फ के दिए अपने के तिये व ति कि स्व देशिक्ट योग्ले पाई के दिए अपने कि सिर्फ के क्या है नज सा ता कि हा है। त्र त्रिय की स्वित कि स्व ब्रह्म के लिए उपने किस सिर के त्र ता कि त्र हिए प्रत्य के ति प्रति क्वा कि से कि साति मित के क्वा कि स्व करते के जददेश्व स नितिन शर्मा कम्पनी सेक्रेटरी

7

•

एक सीलियता कि में प्रचान मा भर देविया (बिया वार्यवाली में से) उस के प्रकार की स्थान देवियेए प्रभाव का को के प्रकार कि मा के प्रकार का प्रकार के प्र 10 अप्रकार कर के का के के प्रकार क